

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मई 2017—ज्येष्ठ 5, शक 1939

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

कार्यालय, नगरपालिक निगम, कटनी, मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्र. 174-परिसीमन-2014-मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-518-अठारह-3-2004 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आयुक्त, जबलपुर एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 10 के अधीन नगरपालिक निगम, कटनी के वार्डों का विस्तार किया गया था. जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 13 जून 2014 में प्रकाशित किया जा चुका है. नवनिर्मित वार्डों का नामकरण कर अनुसूची अनुसार प्रकाशन हेतु प्रस्तावना निम्नानुसार है.

### अनुसूची

वार्ड क्र.	मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-2 दिनांक 13 जून 2014 में प्रकाशित	निगम का सामान्य सम्मिलन दिनांक 8-1-2016 में पारित संकल्प/निर्णय अनुसार प्रस्तावित वार्डों का नाम
02	प्रस्तावित नवनिर्मित वार्ड	बिरसा मुण्डा वार्ड Birsa Munda Ward
17	प्रस्तावित नवनिर्मित वार्ड	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड Pt. Dindayal Upadhyay Ward
18	प्रस्तावित नवनिर्मित वार्ड	श्री राम जानकी हनुमान वार्ड Shri Ram Janki Hanuman Ward
44	प्रस्तावित नवनिर्मित वार्ड	विश्राम बाबा वार्ड Vishram Baba Ward.

संजय जैन, आयुक्त.